



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3591]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 5, 2019/कार्तिक 14, 1941

No. 3591]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5, 2019/KARTIKA 14, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2019

का.आ. 3985(अ).—जबकि मंत्रालय ने शासकीय अधिसूचना सं. का.आ. 641(अ), तारीख 2 मार्च, 2015 के अनुसार मुख्य अभियंता (एनएच), राज्य लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) अथवा उनके अधिकृत विधिक प्रतिनिधि को राष्ट्रीय राजमार्ग 6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 53) के किमी 281.000 से किमी 307.600 तक चार लेन के खंड के लिए किमी 285/2 (कुमहारी गांव के निकट) पर टोल प्लाजा पर 03.03.2015 से फीस एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है।

अब, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारणा एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 641(अ), तारीख 2 मार्च, 2015 के तहत भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना की ‘सारणी 1’ के उपरोक्त उल्लिखित मौजूदा पैराग्राफ:—

“अतः अब, केंद्रीय सरकार सा.का.नि. 838(अ) तारीख 05.12.2008 के तहत प्रकाशित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और आज की तारीख तक इसमें संशोधन (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उपर्युक्त खंड पर फीस उदग्रहीत एवं संग्रहीत की जाएगी तथा मुख्य अभियंता (एनएच), छत्तीसगढ़ सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) अथवा उनके अधिकृत विधिक प्रतिनिधि को उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम 6(ख) जिसके अनुसार निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार रियायत अवधि के समाप्त होने के पश्चात् फीस-दर मौजूदा फीस-दर का 40% होगी और इसके पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा, के अनुसरण में दिनांक 03.03.2015 से फीस एकत्र करने के लिए अधिकृत करती है।”

उपरोक्त मौजूदा पैराग्राफ के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“अतः अब, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उपर्युक्त खंड पर फीस उदग्रहीत एवं संग्रहीत की जाएगी तथा टोल संग्राहण एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अथवा उनके अधिकृत विधिक प्रतिनिधि को उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम 6(ख) जिसके अनुसार निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार रियायत अवधि के समाप्त होने के पश्चात् फीस-दर मौजूदा फीस-दर का 40% होगी और इसके पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा, के अनुसरण में फीस एकत्र करने के लिए अधिकृत करती है।”

[फा. सं. 12027/12/2010/सीजी/पार्ट-जोन-4]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2019

S.O. 3985(E).—Whereas, as per Gazette Notification No. S.O. 641(E) dated 2nd March, 2015, the Ministry has authorized the Chief Engineer (NH), State PWD, Government of Chhattisgarh (hereinafter referred to as “Authority”) or his authorized legal representative to collect the fee from 03.03.2015 at Toll Plaza at Km. 285/2 (near Kumhari village) for the four laned stretch from Km. 281.000 to Km. 307.600 of NH-6 (New NH-53).

Now, in exercise of powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby makes following amendment to the notification of Ministry of Road Transport and Highways, Government of India published vide S.O. No. 641(E) dated 2nd March, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii):—

Existing paragraph mentioned above the ‘**Table 1**’ of the said notification:—

“Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide GSR 838(E) dated 05.01.2008 and its amendments till date (hereinafter referred to as ‘said rules’), the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fee on the said section and authorizes Chief Engineer (NH), Government of Chhattisgarh (hereinafter referred to as “Authority”) or his authorized legal representative to collect the fee from 03.03.2015 in accordance with sub-rule 6 (b) of rule 6 of the said rules according to which the rate of fee shall be 40% of the rate of existing fee after the concession period is over, as per the Schedule below and hereafter to be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules.”

The above existing paragraph shall be substituted with the following paragraph:—

“Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as ‘rules’), the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fee on the said section and authorises the National Highways Authority of India (NHAI) as Toll Collecting Agency or his authorized legal representative to collect the fee in accordance with sub-rule 6 (b) of rule 6 of the said rules according to which the rate of fee shall be 40% of the rate of existing fee after the concession period is over, as per the Schedule below and hereafter to be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules.”

[F. No. 12027/12/2010/CG/Part-Zone-4]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.